



सत्यमेव जयते

# झारखण्ड गजट

## असाधारण अंक

### झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

---

संख्या 248 राँची, मंगलवार, 23 चैत्र, 1938 (श०)  
12 अप्रैल, 2016 (ई०)

---

#### नगर विकास एवं आवास विभाग

-----

#### अधिसूचना

31 मार्च, 2016

संख्या-01/स्था0/न्याया0-21/2016/न0वि0-1732-नगर विकास एवं आवास विभाग के अन्तर्गत झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड में पदस्थापित श्री मुरारी भगत, अधीक्षण अभियन्ता की सेवा वापस लेते हुए, उन्हें अगले आदेश तक प्रभारी मुख्य अभियन्ता, राँची जल पर्षद, राँची के रिक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है।

2. यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रवृत्त होगा ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,  
राहुल कुमार,  
सरकार के अवर सचिव ।

-----